



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]

No. 341]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2002/श्रावण 1, 1924
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2002/SRAVANA 1, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2002

सं. 72/2002-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 516(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) सारणी में, क्रम सं. 167 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"167क	कोई अध्याय	(क) बक्कलस, "डी" रिंग्स, आईलेट्स, हुक्स और आईस, रिबेड्स और स्ट्रिप्स ; (ख) बटन्स और फास्टनर्स, सभी प्रकार के (ग) बेलक्रो हुक, बेलक्रो टेप्स और लूप टेप ; (घ) इलास्टिक टेप, असंजक टेप और रिइनफोर्समेंट टेप ; (ङ) स्टेम्पिंग फॉइल ; (च) सिलाई का धागा ; (छ) चुम्बकीय तालों सहित ताले ; (ज) मेटल हैंडल, हैंडल फिटिंग्स, डॉग हुक्स, सभी प्रकार के लोगोस, रिंग बाईंडर्स, की-हुक्स, की-रिंग, की-होल्डर्स, पुश क्लिप, चैन्स, पुलर्स, हिन्डोस और चुम्बकीय स्प्रैन्स ;" (झ) ग्लो लाइनर्स ; (ट) लूप रिबेड्स और लूप औवल "	शून्य	शून्य	21क

(2) अनुबंध में,—

(i) शर्त सं. 21 में, उप-शर्त (क) और (ख) के लिए क्रमशः निम्नोक्त उप-शर्तें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

शर्त सं.	शर्त
	“(क) माल का वस्त्र परिधानों या चमड़े के परिधानों के विनिर्माता द्वारा वस्त्र परिधानों या चमड़े के परिधानों के निर्माण में उपयोग के लिए उस विनिर्माता द्वारा किए जाने वाले निर्यात के लिए आयात किया जाता है और यह कि उक्त विनिर्माता यथास्थिति, परिधान निर्यात सम्बन्धित परिषद या चमड़ा निर्यात परिषद में रजिस्ट्रीकृत है ;
	(ख) आयात किए गए माल का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए वस्त्र परिधानों या चमड़े के परिधानों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तथापि, आयात की गई अस्तर भी भीतरी अस्तर की सामग्री का मूल्य उक्त कुल मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है” ;

(ii) शर्त सं. 21 के पश्चात् और उसे संबंधित शर्तों के पश्चात् निम्नलिखित शर्त सं. और शर्त को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

शर्त सं.	शर्त
	“21क , यदि,—
	(क) माल का चमड़े के जूते, चमड़े के दस्ताने, अथवा ट्रेवेल माल, हैंड बैग और इसी प्रकार के चमड़े के बने सामान के विनिर्माता द्वारा किए जाने वाले निर्यात के लिए आयात किया जाता है और यह कि उक्त विनिर्माता चमड़ा निर्यात परिषद में पंजीकृत है ;
	(ख) आयात किए गए माल का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किए गए चमड़े के जूतों, चमड़े के दस्तानों अथवा यात्रा सामान, हैंड बैगों तथा चमड़े से बनाए गयी ऐसी ही वस्तुओं के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
	(ग) चमड़ा निर्यात परिषद से आयातक उप-शर्त (ख) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के मूल्य और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के तहत पहले से आयातित माल के मूल्य और मात्रा को भी प्रमाणित करते हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।”

[फा.सं. 605/201/01-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अवर सचिव

टिप्पणी :—1 मार्च, 2002 की मूल अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा.का. नि. सं. 18 (अ) के तहत 1 मार्च, 2002 को प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना सं. 70/2002-सीमाशुल्क के तहत किया गया था जो भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा. का. नि. सं. 490(अ) के तहत दिनांक 4-7-2002 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2002

No. 72/2002-CUSTOMS

G.S.R. 516(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely :—

In the said notification,—

(1) in the Table, after S.No. 167 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
167A	Any Chapter	(a) Buckles, 'D'rings, eyelets, hooks and eyes, rivets and studs;	Nil	Nil	21A
		(b) Buttons and fasteners of all kinds;			

(3)

- (c) Velcro Hook, Velcro tapes and Loop tape;
- (d) Elastic Tape, adhesive tape and reinforcement tape;
- (e) Stamping foil;
- (f) Sewing thread;
- (g) Locks including magnetic locks;
- (h) Metal handles, handle fittings, dog hooks, Logos all types, Ring binders, Key hooks, Key rings, Key holders, Push clip, Chains, pullers, hinges and magnetic snaps;
- (i) Glow liners;
- (j) Loop rivets and loop oval";

(2) in the Annexure,

(i) in Condition No. 21, for sub-conditions (a) and (b), the following sub-conditions shall respectively be substituted, namely, —

Condition No.	Condition
"(a)	the goods are imported by a manufacturer of textile garments or leather garments for use in the manufacture of said goods for export by that manufacturer and the said manufacturer is registered with the Apparel Export Promotion Council or Council for Leather Exports, as the case may be,—
(b)	the total value of goods, imported shall not exceed 3 per cent of the FOB value of textile garments or leather garments exported during the preceding financial year, however, the value of lining, and inter-lining materials imported shall not exceed 2 per cent of the said total value";

(ii) after Condition No. 21 and the condition relating thereto, the following Condition No. and condition shall be inserted, namely,—

Condition No.	Condition
"21A	If,—
(a)	The goods are imported by a manufacturer of leather footwear, leather gloves, or travel goods, hand bags and similar containers all made of leather, for use in the manufacture of said goods, for export by that manufacturer and the said manufacturer is registered with the Council for Leather Exports;
(b)	the total value of goods imported shall not exceed 1 per-cent of the FOB value of leather footwear, leather gloves, or travel goods, hand bags and similar containers all made of leather, exported during the preceding financial year,
(c)	the importer produces a certificate from the Council for Leather Exports certifying the value of exports made during the financial year mentioned in sub-condition (b), and also the value and quantity of goods already imported under this notification during the current financial year."

[F. No. 605/201/2001-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 21/2002-Customs dated the 1st March, 2002 was published in the Gas zette of India, (Extraordinary) vide G.S.R. No. 118(E), dated the 1st March, 2002 and last amended by notification No. 70/2002-Customs dated, the 11th July, 2002 published in the Gazette of India (Extraordinary) vide G.S.R. No. 490(E) dated the 11th July, 2002.

